😥 The New India Assurance Co. Ltd दोपहिया/निजी कार/वाणिज्यिक वाहन की पैकेज पॉलिसी के लिए प्रस्ताव प्रपत्र/PROPOSAL FORM FOR TWO WHEELER/PRIVATE CAR/COMMERCIAL VEHICLE PACKAGE POLICY							
(प्रस्तावक द्वारा नीचे दिए गए प्रश्न/विवरण प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। बीमाकर्ता बीमा लेखन उद्देश्य के लिए कोई अन्य वांछित जानकारी मांग सकता है) / (The queries made/details stated below are the minimum requirements to be furnished by a proposer.The Insurer may seek any other information as desired for underwriting purpose)							
पॉलिसी का प्रकार/ Type of Policy पे एज यू ड्राइवान्न As You drive	पैकेज पॉलिसी/PACKAGE POLICY	स्टैंडअलोन स्व-क्षति/STANDALONE OWN	<u> </u>				
	नेजी कर/PRIVATE CAR द	ोपहिया वाहन / TWO WHEELER	वाणिज्यिक वाहन / COMMERCIAL VEHICL	E			
1. बीमाधारक का विवरण / Insured Details:-	विकास अधिकारी का नाम और कोड (केवल कार्यालय उपयोग के लिए) / Dev. Officer Name & Code (Office Use Only)		एजेंसी/मध्यस्थ का कोड एवं नाम (केवल कार्यालय उपयोग के लिए) / Agency/Intermediary Code & Name (Office Use Only)				
प्रस्तावक (मालिक) का पूरा नाम / Proposer's (Owner's) Full Name:	लिंग: पुरुष/महिला/अन्य / Gender: Male / Female / Others	<u>पु/M</u> म/F अन्य/отн	व्यवसाय / Occupation: दूरभाष संख्या / Tel. No :				
	राष्ट्रीयता / Nationality:		मोबाइल संख्या / Mobile No. आधार संख्या/Aadhar No.				
जन्म तिथि / Date of Birth: ईमेल आईडी / Email ID:	सीकेवाईसी नंबर/CKYC No. पैन नंबर/PAN No.:		ड्राइविंग लाइसेंस नं/Driving Licence No. पासपोर्ट नं./Passport No.				
बैंक खाता संख्या / Bank Account No.:	बैंक का नाम/Name of the Bank:		मतदाता पहचान पत्र क्रमांक/Voter ID Card No.				
आईएफएससी कोड / IFSC Code:	बैंक का पता/Address of the Bank		जीएसटीआईएन नंबर/GSTIN No.				
पता (जहां वाहन सामान्यतः रखा और प्रयोग किया जाता है) / Address ( where vehicle is no	rmally kept and used)	(स्थायी) पता/ Address (Permanent)					
		पिन	[/Pin				
2. नामित व्यक्ति का विवरण / Nominee's Details: नामित का पूरा नाम / Nominee's Full Name:	<del></del>						
	लिंग: पुरुष/महिला/अन्य / Gender: Male / Female / Others		जन्म तिथि / Date of Birth:				
बीमित के साथ संबंध / Relationship with Insured:	राष्ट्रीयता / Nationality:		दूरभाष संख्या / Tel. No : मोबाइल नंबर / Mobile No.				
वैंक खाता संख्या / Bank Account No.:	पेशा / Occupation:		ई-मेल एड्रेस / E-Mail Address:				
पत्राचार का पता / Corresponance Address :		(स्थायी) पता/ Address (Permanent)					
Pin		Pin					
3. नामांकित व्यक्ति के अव्यस्क होने की स्थिति में / In Case Nominee is a Minor: संरक्षक का नाम: / Name of Guardian:		संरक्षक का पता / Address of Guardian:					
मोबाइल नंबर / Mobile No.:		<del></del>					
		पिन/Pin					
4. अन्य बीमा विवरण / Other Insurance Details:							
		यदि हां, बीमाकर्ता का नाम / If Yes, Insurer Name:					
क्या वाहन पहले से ही अन्य बीमाकर्ता के पास बीमाकृत है / Whether Vehicle is already Insured with other Insurer	YES NO	पॉलिसी संख्या/Policy No.:वीमा अवधि/Period of Insurance					
5. अवधि जिसके लिए बीमा प्रस्तावित है/Period proposed for insurance	से/From:AM /	PM of	तक/to Mid Night of	_			
E area as feature/ Posterior of the contribution							
6. वाहन का विवरण/ Particulars of the vehicle: पंजीकरण संख्या/Registration No.		वाहन की श्रेणी/Class of vehicle					
चैसीस नंबर/Chassis No		इंजिन नंबर/Engine No					
मेक/Make		मॉडल एवं वैरिएंट/Model & Variant					
सीसी/किलोवाट में क्यूबिक क्षमता /Cubic Capacity in CC/KW		ईंधन का प्रकार- पैट्रोल / सीएनजी /एलपीजी/बाइ-फ्यूल/इलेक्ट्रिक वाहन /Type of Fuel - Petrol/CNG/LPG/Bi-fuel / Electric Vehicle					
निर्माण का वर्ष/Year of Manufacture वाहन का इन्वाइस मूल्य/Vehicle Invoice Value	₹/Rs.	सकल वाहन भार/Gross Vehicle Weight वाहन का रंग/Color of Vehicle					
बीमाधारक द्वारा घोषित मूल्य(आईडीवी)/Insured's Declared Value (IDV)	₹/Rs.	वाहन में बैठने की क्षमता/Seating Capacity of the Vehicle					
पंजीकरण प्राधिकारी का नाम और पता/Name and Address of Registration Authority		पंजीकरण की तिथि/Date of Registration					
पंजीकरण वैधता तिथि/Registration validity date		बॉडी बिल्डिंग लागत (यदि लागू हो)/Body Building Cost (If Applicable)		₹/Rs.			
7. वाहन का अतिरिक्त विवरण/ Additional Details of the vehicle:							
खरीद के समय वाहन नया है या सेकेंड हैंड/Is Vehicle New or Second Hand at the time of purchase?	नया/NEW सेकंड हैंड/SECOND HAND	वर्तमान स्वामित्व/Current Ownership					
निजी, सामाजिक, घरेलू, आनंद, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त वाहन/Vehicle Used for Private, Social, domestic, pleasure, professional purpose	हां/YES नहीं/NO	क्या वाहन अच्छी स्थिति में है/Is vehicle in	good condition?	ा हां/YES नहीं/NO			
वाहन खरीदने की तिथि/Date of Purchase of vehicle		अप्रचलित वाहन/Obsolete Vehicle		हां/YES नहीं/NO			
क्या वाहन का उपयोग ड्राइविंग ट्यूशन के लिए किया जाता है?/Whether vehicle is used for driving tuition	हां/YES नहीं/NO	वाहन का उपयोग अपने परिसर तक ही सीमित है/Vehicle use is limited to own premises		ि हां/YES ि नहीं/NO			

क्या वाहन विदेशी दूतावास या वाणिज्य दूतावास का है या वाहन है?/Whether vehicle belongs to foreign emba vehicle without Custom Duty		हां/YES नहीं/NO	क्या वाहन को विटेज और क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया द्वारा विटेज कार के रूप में प्रमाणित किया गया है/Whether vehicle is certified as Vintage car by Vintage and Classic Car Club of India	हां/YES नहीं/NO
क्या वाहन नेत्रहीन/दिव्यांग/मानसिक रूप से दिव्यांग व्या और आरटीए द्वारा समर्थित है?/Vehicle designed for E Challenged persons and endorsed by RTA	क्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया Blind/Handicapped/Mentally	हां/YES नहीं/NO	सीएनजी/एलपीजी किट का मृल्य/Value of CNG/LPG Kit	₹/Rs.
क्या फाइबर ग्लास टैंक लगाया गया है?/Fibre Glass Tan	nk Fitted	हां/YES नहीं/NO	यदि हां तो फाइबर ग्लास ईंधन टैंक का मूल्य/If Yes then Value of Fibre glass	
क्या आप ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सद	इस्य हैं?/Are you a member of	हां/YES नहीं/NO	fuel tanks यदि हां तो एसोसिएशन का नाम/If Yes then Name of Association	
Automobile Association of India				
सदस्यता संख्या/Membership No.	<b>.</b>		सदस्यता की समाप्ति की तिथि/Date of Expiry of Membership	
क्या कार सड़क पर चलने योग्य स्थिति में और क्षति से मुव and free from damage	न्त है?/Car in roadworthy condition	हां/YES नहीं/NO	वाहन की स्थिति का विवरण/Details of Vehicle Condition	
क्या वाहन में चोरी-रोधी उपकरण लगा है?/Is the vehick	e fitted with Anti-theft device	हां/YES नहीं/NO	विवरण दें - प्रकार/मॉडल/Give, details - Type / Model	
क्या वाहन के लिए भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक Area required	है?/Extension of Geographical	हां/YES नहीं/NO	यदि हां: विस्तार: 1. बांग्लादेश 2. भूटान 3. नेपाल, 4 पाकिस्तान 5. श्रीलंका 6. मालदीव/If yes: Extension to: 1. Bangladesh 2. Bhutan 3. Nepal,4 Pakistan 5. Srilanka 6. Maldives	
सरकार द्वारा वाहन की मांग/Vehicle Requisitioned by	Government	हां/YES नहीं/NO		
क्या मोटर रेसिंग/स्पीड टेस्ट के लिए रैली एक्सटेंशन आव	त्रश्यक है/Whether Rally extension	हां/YES नहीं/NO	रैली के लिए दिनों की संख्या/No.of days for Rally	
required for Motor Racing / Speed Test क्या वाहन के साथ ट्रेलर संलग्न है?/Whether trailer atta	nched to the vehicle (For	हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो संलग्न ट्रेलरों की संख्या/If Yes then,Number of Trailers Attached:_	
Commercial Vehicle)			संलग्न ट्रेलर की कुल बीमित घोषित मूल्य/Total IDV of the Trailer Attached:	
7. वाहन का अतिरिक्त विवरण (जारी)/ Additional D	Petails of the vehicle: (Cont)			
क्या बीमा के लिए प्रस्तावित वाहन किराया खरीद के तहत/लीज समझौते के तहत/हाइपोथिकेशन समझौते के तहत है।/Is the vehicle proposed for insurance is Under Hire Purchase / Under Lease Agreement / Under Hypothication Agreement.		हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो संबंधित पक्षों का नाम और पता दें/If Yes, give name and address of concerned parties :	
			यदि हां तो/If Yes then	
			म्यूजिक सिस्टम का मूल्य/Value of Music System	₹/Rs.
			एसी/पंखे का मूल्य/Value of AC/Fan	₹/Rs.
अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग/Extra Electri	ical/ Electronic fittings	हां/YES नहीं/NO	रोशनी का मूल्य/Value of Lights	₹/Rs.
			अन्य फिटिंग का मूल्य/Value of Other Fittings	₹/Rs.
			अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग का कुल मूल्य/Total Value of Extra Electrical/ Electronic fittings	₹/Rs.
गैर-इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग/Non-Electrical/ Electronic fittings		हां/YES नहीं/NO	गैर-इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग का मूल्य/Value of Non- Electrical/	₹/Rs.
क्या अतिरिक्त टोइंग आवरणेज की आवश्यकता है?/Additional Towing Coverage Required		हां/YES नहीं/NO	Electronic fittings यदि हां तो अतिरिक्त टोइंग आवरणेज राशि/If Yes then Additional Towing	₹/Rs.
त्या मार कार मंलग है?/Cido Cor Attached				
क्या सादड कार संलय है?/Side Car Attached		□ FİNES □ O.	Coverage Amount यदि हां तो साइड कार का मला/If Yes, then value of side car	₹/Re
क्या साइड कार संलग्न है?/Side Car Attached	0	हां/YES नहीं/NO	Coverage Amount यदि हां, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घट	ना बीमा/COMPULSORY OWNER DR	U IIII		₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घट क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है?		U IIII	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hok (If No'please refer declaration on page 3)*	d Valid Driving License	IVER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घट क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole	d Valid Driving License	IVER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राहविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Di मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की व	d Valid Driving License	IVER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then  License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving  License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Di	d Valid Driving License river तिथि/Owner Driver License Issue	IVER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then  License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving  License No	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Di मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की I Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing	VER PA  हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License  Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः व्या आपके पास वैध झाइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Di मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की I Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राध्य की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac	IVER PA	यदि हाँ तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then  License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving  License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License  Expiry Date	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः व्या आपके पास वैध झाइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Di मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की I Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राधि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 5. झाइवर/झाइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS:	VER PA  हां/YES नहीं/NO  हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License  Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Down (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की for Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की for Mathematical (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राध्य की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum (1) कु ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर हैं/Do you Have An	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue I वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS: ny other Driver	VER PA  हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Double मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की IDate मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रात्तिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 3. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर हैं?/Do you Have Ar पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का शिका दोषी ठहराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI ST	VER PA  हां/YES नहीं/NO  हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License  Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Downer Downer (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ar Use लीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किरी दुर्घटना का शिका दोषी ठहराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI ST	VER PA    हां/YES   नहीं/NO   हां/YES   नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License  Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की ID Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ar पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर कि ट्रीटना का शिका वापी ठहराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences 10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac GLICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s	VER PA    हां/YES   नहीं/NO   हां/YES   नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai वार्वे पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिर्गिठ you Have Ai वार्वे (पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या इंग्वर हिर्गिठ you Have Ai पिछले तीन वर्षों में पिछले वीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Insurer	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac GLICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s	VER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की ID Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ar पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर कि ट्रीटना का शिका वापी ठहराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences 10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac GLICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s	VER PA    हां/YES   नहीं/NO   हां/YES   नहीं/NO	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले का पिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले अधिवर्य/Voluntary Excess लागू एनसीवी %/NCB Applicable %	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s ITICULARS:	VER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any)	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में त्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले का पिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले तीन वर्षों में तथा ड्राइवर हिर्मा का घिछले अधिवर्य/Voluntary Excess लागू एनसीवी %/NCB Applicable %	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac i LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  CTICULARS:	VER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) दावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राश्चि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का घिता वार्वाण ठराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences  10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Ins रवेंच्छिक आधिक्य/Voluntary Excess लागू एनसीवी %/NCB Applicable %	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac s LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s RTICULARS:	VER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राश्चि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का घिता वार्वाण ठराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences  10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Ins रवेंच्छिक आधिक्य/Voluntary Excess लागू एनसीवी %/NCB Applicable %	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  surer  निवार्य दायित्व पॉलिसी विवरण/MAND  से/From	VER PA	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति विथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) दावे/दावों की अनुमानित राथि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और वीमाकर्ता का	₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ar पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का थिका वोषी ठहराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences 10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Ins स्वैच्छिक आधिक्य/Voluntary Excess लागू एनसीबी %/NCB Applicable % 11. स्टैंडअलोन स्व-कृति (एसएओडी) पॉलिसी के लिए अविमा अवधि/Period of Insurance	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI RS. 15 Lac SICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  GUICENCES :  GUICENCES CONTROLLERS  RTICULARS:  GUICENCES CONTROLLERS  RTICULARS:  GUICENCES :  GUICENCES:	VER PA    FINO    यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) दावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और वीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer	₹/Rs.	
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः व्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की प्राथिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver व्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 9. ड्राइवर/हाइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING व्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन का पिछले हैं के क्या ड्राइवर हैं के किए हिंदी के किए अंग ड्राइवर हैं के पिछले तीन के लिए आ तीन के लिए आ वित्राय दुर्घटना वीमा अविंग नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा want to include PA cover for Named Person	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI RS. 15 Lac SICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  GUICENCES :  GUICENCES CONTROLLERS  RTICULARS:  GUICENCES CONTROLLERS  RTICULARS:  GUICENCES :  GUICENCES:	Tellino   Te	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और बीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer	
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः व्या आपके पास वैध ड्राहविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखे)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hime (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hime (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की (Date मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने वाण आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राधि को कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum (S.) ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/PRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर हैं?/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिंग/Do you Have Al पिछले तीन वर्षों में कि का स्वाप्त कर हिंग के को कि का स्वाप्त कर हिंग के को कि का स्वाप्त कर तीन कर हिंग के को कि का स्वाप्त कर तीन कर ती	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing  ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI RS. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS: surer  निवार्य दायित्व पॉलिसी विवरण/MAND  से/From	VER PA    FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   FilVE	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee: अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy द्वावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और वीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  यदि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a	nd Details:
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की Indiana (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum S 9. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ar पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का शिका वाचे पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का शिका वाचे पाय गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences 10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Ins स्वेच्छिक आधिक्य/Voluntary Excess लागू एनसीबी %/NCB Applicable % 11. स्टेंडअलोन स्व-कृति (एसएओडी) पॉलिसी के लिए अर्व बीमा अविध/Period of Insurance 12. व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण/ PERSONAL ACCIDENT क्या आप नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा want to include PA cover for Named Person नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual वामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual वामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI AST ST Lac GICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS: surer  निवार्य दायित्व पॉलिसी विवरण/MAND  सै/From	Tellino   Te	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) दावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और बीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  यदि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a सभी नामित व्यक्तियों के लिए मूल बीमा राशि/Capital SI for All Named Persons	
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः  स्या आपके पास वैध ड्राहविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)*  मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए आधारण प्राप्त को को को र्  पुण्ठ मालिक वाला ने नाम्/Name of Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name  of Named Person  नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual का आप नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual का आप चित्तिक इाह्तरों के लिए पीए आवरण शामिल का include PA Cover for Paid Drivers	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing  ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac  G LICENCES PARTICULARS:  ny other Driver  र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  surer  तिवार्थ दायित्व पॉलिसी विवरण/MAND  से/From	VER PA    FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   नहीं/NO   FilVES   FilVE	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ, तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee: अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राथि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और वीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  यदि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a सभी नामित व्यक्तियों के लिए मूल बीमा राथि/Capital SI for All Named Persons पदि हाँ तो सवेतन ड्राइवरों की संख्या/If Yes then No of Paid Drivers	nd Details:
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do Hing (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की Indian (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राशि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 59. ड्राइवर/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर है?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हि?/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिए/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिए/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिए/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर हिए/Do you Have Air पिछले तीन वर्षों में क्या ड्राइवर हिए/Do you Have Air के किए पिछले तीन के लिए आदित्य जिल्ला के तीन के लिए आदित्य उपले के तीन के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा want to include PA cover for Named Person नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual क्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल क्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व्या आप वैतनिक के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual	d Valid Driving License  river  तिथि/Owner Driver License Issue  वाला प्राधिकारी/License Issuing  ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac  G LICENCES PARTICULARS:  ny other Driver  र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  surer  तिवार्थ दायित्व पॉलिसी विवरण/MAND  से/From	VER PA    FINO    यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee:  अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) दावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और बीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  यदि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a सभी नामित व्यक्तियों के लिए मूल बीमा राशि/Capital SI for All Named Persons	nd Details:	
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः  स्या आपके पास वैध ड्राहविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hole (If No'please refer declaration on page 3)*  मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Do  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने की र्  Date  मालिक (वाहन चलाने वाला) के लिए लाइसेंस जारी करने  क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राधि की कोई  you have any other PA/CPA Policy with Minimum S  9. इाइवर/इाइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING  क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर हैं?/Do you Have Ar  पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का शिका  दोषी ठहराया गया/In the past three years, whether t  and convicted for such offences  10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of the Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Names of the Previous Insurer  पिछले बीमाकर्ता का नाम/Names of Named Person  नामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual क्या आप वैतनिक ड्राइवरों के लिए पीए आवरण शामिल व  include PA Cover for Paid Drivers  वैतनिक ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual क्या आप अकथित व्यक्ति के लिए पीए आवरण शामिल व	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue i वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac G LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  CTICULARS: Surer	VER PA    Filino	यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ, तो साइड कार का मूल्य/If Yes, then value of side car  यदि हाँ, तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver  मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No  मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date  नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee: अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  यदि हाँ, तो विवरण दें/If yes, give details:  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number  पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राथि/Estimated Amount of Claim/s  LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY  पॉलिसी संख्या और वीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  यदि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a सभी नामित व्यक्तियों के लिए मूल बीमा राथि/Capital SI for All Named Persons पदि हाँ तो सवेतन ड्राइवरों की संख्या/If Yes then No of Paid Drivers	nd Details:  ₹/Rs.
8. अनिवार्य मालिक (वाहन चलाने वाला) व्यक्तिगत दुर्घटः क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है? (यदि नहीं तो कृपया पृष्ठ 3 पर घोषणा देखें)/Do You Hold (If No'please refer declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) की आयु/Age of Owner Down of the declaration on page 3)* मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस जारी करने की पि प्राप्त कर के किए काइसेंस जारी करने की पि प्राप्त कर के किए काइसेंस जारी करने की पि प्राप्त कर के किए काइसेंस जारी करने की पि प्राप्त कर के किए काइसेंस जारी करने Authority for Owner Driver क्या आपके पास न्यूनतम 15 लाख रु. बीमा राश्चि की कोई you have any other PA/CPA Policy with Minimum 9. ड्राइवर/इाइविंग लाइसेंस विवरण/DRIVER/ DRIVING क्या आपके पास कोई अन्य ड्राइवर है?/Do you Have Ai पिछले तीन वर्षों में, क्या ड्राइवर किसी दुर्घटना का शिका दोषी ठरराया गया/In the past three years, whether t and convicted for such offences 10. पिछला बीमा विवरण/PREVIOUS INSURANCE PAR पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का गता/Address of the Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का गता/Address of the Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का पता/Address of the Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous Insurer पिछले बीमाकर्ता का नाम/Name of Previous विंप के लिए आया पामित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual का पामित व्यक्तिक हाइवरों के लिए पीए आवरण शामिल का Include PA Cover for Paid Drivers विंतिक ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत सीएसआई/Individual include PA Cover for Paid Drivers	d Valid Driving License river  तिथि/Owner Driver License Issue । वाला प्राधिकारी/License Issuing ई अन्य पीए/सीपीए पॉलिसी है? / Do SI Rs. 15 Lac IS LICENCES PARTICULARS: ny other Driver र हुआ और उसे ऐसे अपराधों के लिए the driver met with accident/s  RTICULARS:  SUITER CEST STATE TO STATE TO STATE TO STATE  से/From	VER PA    FilVES   नहीं/NO   RS.   FilVES   नहीं/NO   RS.   FilVES   FREI/NO   RS.   RS	यदि हाँ तो मालिक (वाहन चलाने वाला) के लाइसेंस का प्रकार/If Yes then License Type of Owner Driver मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No मालिक (वाहन चलाने वाला) ड्राइविंग लाइसेंस नं/Owner Driver Driving License No मालिक (वाहन चलाने वाला) लाइसेंस की समाप्ति तिथि/Owner Driver License Expiry Date नामित व्यक्ति का नाम/Name of Nominee: अगर हां तो कृपया विवरण दें/If Yes, Please provide Details  पिछली पॉलिसी संख्या/Previous Policy Number पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि/Expiry date of previous Policy दावों की संख्या (यदि कोई हो)/No. of Claims (if any) वावे/दावों की अनुमानित राशि/Estimated Amount of Claim/s LS FOR STANDALONE OWN DAMAGE (SAOD) POLICY पॉलिसी संख्या और बीमाकर्ता का नाम/Policy No. and Name of Insurer  पढि हां तो नामित व्यक्तियों की संख्या/If Yes then Number of Named Persons नामांकित व्यक्ति का विवरण/Nominee particulars : नाम और विवरण/Name a सभी नामित व्यक्तियों के लिए मूल बीमा राशि/Capital SI for All Named Persons पदि हाँ तो सवेतन ड्राइवरों की संख्या/If Yes then No of Paid Drivers इाइवरों के लिए कैपिटल बीमा राशि/Capital SI for Drivers	nd Details:  ₹/Rs.

13. कानूनी दायित्व आवरणेज: (वाणिज्यिक वाहनों के लिए	ए लाग्)/LEGAL LIABILITY COVERAGI	E : (Applicable for Commercial v	rehicles)					
वेतनभोगी ड्राइवरों, संचालन और/या WCA के अंतर्गत वाहन का रखरखाव के लिए नियुक्त क्लीनरों के लिए कानूनी दायित्व का बीमा/LL to paid drivers,cleaner employed for operation. and/or maintenence of vehicle under WCA		हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ तो कानूनी रूप से उत्तरदायी ड्राइवरों की संख्या/If Yes then Number of Drivers Legally Liable					
यात्रा करने वाले और/या वाहन चलाने वाले बीमित कर्मचारियों के लिए कानूनी दायित्व का बीमा/LL to Employees of Insured traveling and / or driving the Vehicle		हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ तो कानूनी रूप से उत्तरदायी कर्मचारियों की संख्या/If Yes then Number of employees Legally liable					
चालक के रूप में कार्यरत सैनिकों/नाविकों/वायुसैनिकों के लिए कानूनी दायित्व का बीमा/LL to Soldiers/Sailors/Airmen employed as Drivers		हां/YES नहीं/NO	यदि हाँ तो कानूनी देयता वाले सैनिकों/नौसैनिकों/वायुसैनिकों की संख्या/If Yes then Number of LL to Soldiers/Sailors/Airmen					
क्या आप टीपीपीडी आवरण को 6000 रुपये की वैधानिक सीमा तक कम करना चाहते हैं/Do You want to reduce TPPD cover to the statutory limit of Rs.6000		हां/YES नहीं/NO						
14. ऍड ऑन कवर/Add On Covers		,	T.					
ऍड ऑन का नाम/NAME OF ADD ON			ऍड ऑन का नाम/NAME OF ADD ON					
1. निल डेपरेसिएशन ऍड ऑन कवर/Nil Depreciation Add on Cover	हां/YES नहीं/NO		11.पर्सनल बिलॉनगिंग्स कवर/Personal Belongings Cover	हां/YES नहीं/NO				
2. रोड टैक्स ऍड ऑन कवर/Road Tax Add on Cover	हां/YES नहीं/NO		12. हाइ वैल्यू पीए कवर/High Value PA Cover	हां/YES नहीं/NO				
3. रिटर्न टू इन्वाइस ऍड ऑन कवर/Return to Invoice Add on Cover	हां/YES नहीं/NO नहीं/NO		13. रोडसाइड असिस्टेंस कवर/Roadside Assistance Cover	नहीं/NO				
4. नो क्लेम बोनस ऍड ऑन कवर/No Claim Bonus (NCB) Add on Cover	हां/YES		(i) बेसिक कवर/Basic Cover	हां/YES				
5. इंजिन प्रोटेक्ट ऍड ऑन कवर/Engine Protect Add on Cover	नहीं/NO		(ii) गोल्ड आवरण Gold Cover	हां/YES नहीं/NO				
6.एडिशनल टोइंग चार्ज ऍड ऑन कवर/Additional Towing Charges Add on Cover	हां/YES नहीं/NO		14. हाइब्रिड प्रोटेक्ट ऍड ऑन कवर/Hybrid Protect Add on Cover					
7. लॉस ऑफ कंटैंट ऍड ऑन कवर/Loss of Contents Add on Cover	हां/YES नहीं/NO		(i) बेसिक कवर/Basic Cover	हां/YES नहीं/NO				
8. कंज्यूमेबल आइटम कवर/Consumable Items Cover	हां/YES नहीं/NO		(ii) कोंप्रिहेंसिव कवर/ Comprehensive Cover	हां/YES नहीं/NO				
9. की प्रोटेक्ट कवर/Key Protect Cover	हां/YES नहीं/NO		15. बैटरी प्रोटेक्ट ऍड ऑन कवर/Battery Protect Add on Cover	हां/YES नहीं/NO				
10. टायर एंड एलॉय कवर/Tyre & Alloy Cover	हां/YES नहीं/NO							
15. पे एज़ यू ड्राइव/PAY AS YOU DRIVE	I.	I.	<u> </u>	I.	I			
किलोमीटर का चुनाव/Selection of Kilometers	4,000 KMS	6,000 KMS	8,000 KMS	10,000 KMS	10,000 कि.मी. से ऊपर/Beyond 10,000 KMS			
		INSTRUCTION ON INSURED'S	DECLARED VALUE		10/000 14115			
वाहन के बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) को इस टैरिफ के उद्देश्य के लिए 'बीमित राशि' माना जाएगा और यह प्रत्येक बीमित वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि के शुरू होने पर तय किया जाएगा। /The Insured's Declared Value (IDV) of the vehicle will be deemed to be the 'SUM INSURED' for the purpose of this tariff and it will be fixed at the commencement of each policy period for each insured vehicle.  वाहन की आईडीवी को निर्माताओं के ब्रांड और मॉडल के स्वीबद्ध बिक्री मूल्य के आधार पर बीमा / नवीनीकरण की शुरूआत में बीमा के लिए प्रस्तावित वाहन के रूप में तय किया जाना है, और मूल्यहास के लिए समायोजित किया जाना है (नीचे निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार)। साइड कार की आईडीवी और/या सहायक उपकरण, यदि कोई हो, वाहन के लिए फिट किया गया है लिंकन वाहन के निर्माता की स्वीबद्ध बिक्री मूल्य में शामिल नहीं है / इसी तरह तय किया जाना है।/The IDV of the vehicle is to be fixed on the basis of manufacturers' listed selling price of the brand and model as the vehicle proposed for insurance at the commencement of insurance /renewal, and adjusted for depreciation (as per schedule specified below). The IDV of the side car(s) and / or accessories, if any, fitted to the vehicle but not included in the manufacturer's listed selling price of the vehicle is / are also likewise to be fixed.								
नीचे दर्शाए गए अनुसार आयु-वार मूल्यहास की अनुसूची केवल कुल हानि/रचनात्मक कुल हानि (टीएल/सीटीएल) दावों के प्रयोजन के लिए लागू है। एक वाहन को सीटीएल माना जाएगा जहां पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन वाहन की पुनर्प्राप्ति और/या मरम्मत की कुल लागत आईडीवी के 75% से अधिक है। /The schedule of age-wise depreciation as shown below is applicable for the purpose of Total Loss/Constructive Total Loss (TL/ CTL) claims only. A vehicle will be considered to be a CTL where the aggregate cost of retrieval and / or repair of the vehicle subject to terms and conditions of the policy exceeds 75% of the IDV.								
बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) पर पहुंचने के लिए मूल्यहास की अनुसूची/SCHEDULE OF DEPRECIATION FOR ARRIVING AT IDV वाहन की आयु/AGE OF THE VEHICLE								
6 माह से अधिक नहीं/Not exceeding 6 months				FOR FIXI				
6 माह से अधिक परन्तु 1 वर्ष से अधिक नहीं/Exceeding 6 months but not exceeding 1 year				159				
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से अधिक नहीं/Exceeding 1 year but not exceeding 2 years 20%								
2 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष से अधिक नहीं/Exceeding 2 years but not exceeding 3 years 30% 3 वर्ष से अधिक परन्तु 4 वर्ष से अधिक नहीं/Exceeding 3 years but not exceeding 4 years 40%								
5 पर्य से आवर्ष परन्तु ३ वर्ष से अधिक नहीं/Exceeding 5 years but not exceeding 5 years 50%								
अप से आपके परसु 5 वर्ष से आपके परसु 5 प्रवास के महा/Exceeding 5 years but not exceeding 5 years 50% हैं। वाहनों के अप्रचलित मॉडल (यानी वे मॉडल जिन्हें निर्माताओं ने बनाना बंद कर दिया है) और 5 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की आईडीवी बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच सहमत प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।/Note.: 1. IDV of obsolete models of vehicles (ie. Models which the manufacturers have discontinued to manufacture) and vehicles beyond 5 years of age will be determined on the basis of an agreed percentage between the insurer and the insurer.								
प्रस्तावक द्वारा घोषणा/Declaration by the Proposer								
मैं/हम एतद्ववारा घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव प्रपत्र में में?/हमारे द्वारा दिए गए बयान, संलग्न दस्तावेज़ों सहित, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और जोखिम को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य मेरे/हमारे द्वारा छुपाया नहीं गया है। मैं/हम इस बात से सहमत हुं/हैं कि यह घोषणा मेरे/हमारे और 'दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड' के बीच संविदा के आधार होंगे और बीमा अनुबंध का हिस्सा बनेगा।/ / We hereby declare that the statements made by me / us in this Proposal Form, including document(s) attached, are true and correct, to the best of my / our knowledge and belief and nothing materially affecting the risk has / have been concealed by me / us. I / We hereby agree that this declaration shall form the basis of the contract between me / us and "The New India Assurance Co. Ltd." and shall form part of the insurance contract.								

मैं/हम आंगे घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे पास बीमाकृत वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और इसलिए मैं/हम अनिवार्ध मालिक चालक व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण के लिए अयोग्य हैं/हैं। (कृपया प्रस्ताव प्रपत्र का बिंदु 3 देखें)\*/J/We further declare that I/We do not hold an effective Driving License to drive the insured vehicle and therefore I/We am/are ineligible for Compulsory Owner Driver Personal Accident cover. (Please refer point 8 of proposal form)\*

मैं,हम पुनः वचन देता हूं,/देते हैं कि पॉलिसी की अवधि के दौरान यदि वाहन या दस्तावेज़ जो इस प्रस्ताव प्रपत्र का हिस्सा है, में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन किया जाता है /किया जाता है तो, बीमाकर्ता को तुरंत लिखित रूप में इसकी सूचना दे दी जाएगी, ऐसा न करने पर, इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत मेरे,हमारे अधिकार जव्त कर लिए जाएंगे, चाहे वह नुकसान/देनदारियों के लिए महत्वपूर्ण हो या नहीं। I// We further declare that any addition(s) or alteration(s) or modification(s) is / are carried out in the vehicle or in the document(s), during the currency of the policy, furnished / forming part of this Proposal Form, shall be intimated in writing to the Insurer immediately, failing which, the same shall be construed as breach of the Contract and my / our rights shall be forfeited thereunder, irrespective of whether or not, the same is material to the losses / Liabilities.

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं और समय-समय पर उसके बाद के संशोधनों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करेंगे।/। / We also declare that I / we shall comply with the requirements of M. V. Act, 1988, and subsequent amendments thereto from time to time and rules made there under.

में/हम यह भी घोषणा करते हैं कि यदि सरकार पॉलिसी की अवधि (आईएमटी का जीआर-38) के दौरान इस वाहन की मांग करती है तो मैं/हम इस बीमाकर्ता को सूचित करूंगा/करेंगे।/। / We also declare that I / we shall inform this insurer, in case, the Government requisitions this vehicle during the currency of the Policy (GR-38 of IMT). में/हम एतद्दुवारा घोषणा करते हैं कि बीमा के लिए प्रस्तावित वाहन के पास नई जारी पॉलिसी/नवीकरण की तिथि पर वैध पीयूसी और फिटनेस प्रमाणपत्र (परिवहन वाहनी के मामले में) हैं///We hereby declare that the vehicle proposed for insurance has a valid PUC & Fitness Certificate(in case of transport vehicles) on the date of fresh issuance/renewal of the policy मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता और प्रभावशीलता के उचित सत्यापन के बाद ही इस वाहन को चलाने के लिए वाहन चालक को सौंपा जाएगा।/। / We also declare that this vehicle shall be handed over to the Driver only after due verification of genuinity and effectiveness of his Driving Licence to drive this vehicle मैं/हम इसके द्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम इस कंपनी के सामान्य फॉर्म में बीमा पॉलिसी स्वीकार करने के इच्छुक हैं।/। / We hereby also declare that I / we am / are willing to accept a policy of insurance in this company's usual Form. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि बीमा के लिए प्रस्तावित वाहन के लिए कोई अन्य पेकेज/देयता बीमा पोलिसी अस्तित्व में नहीं है।///We hereby declare that there is no other Package/Liaibility insurance policy is in existence of the vehicle porposed for insurance मैं पॉलिसी संबंधी जानकारी हार्ड कॉपी में प्राप्त करना चाहता हूं/ । Want to avail Policy in Physical Form. 🔲 मैं पॉलिसी संबंधी जानकारी सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करना चाहता हूं I/ I Want to get the Policy related information in soft copy प्रस्तावक के बाएं अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर/LTI / Signature(s) of the स्थान/Place Proposer हस्ताक्षर सहित गवाह का नाम/Name of the Witness with signatue तिथि व समय /Date & Time ध्यान दें. मैं/हम इस प्रस्ताव प्रपत्र में शामिल उपरोक्त सामग्री जिसे मेरे/हमारे लिए पढ़ी गई, जो सत्य और हमारे संस्करण के अनुसार है, को पढ़ने/समझने के बाद अपना/अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं /रहे हैं।/N. B.: | / We am / are putting my / our signature(s) after understanding the above contents, incorporated in this Proposal Form , read over to me / us, are true and in accordance with my / our version बीमा अंतराल की स्थिति में वाहन निरीक्षण रिपोर्ट/VEHICLE INSPECTION REPORT IN CASE OF BREAK IN INSURANCE केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु/(For Office Use Only ) वाहन का रंग/Colour of the ओडोमीटर रीडिंग/Odometer वाहन संख्या/Vehicle No.: Reading: निरीक्षण स्थल/Place of vehicle: इंजिन नंबर/Engine No.: चैसीस नंबर/Chassis No.: Inspection: वाहन की स्थिति और क्षति, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें/Specify the condition of the Vehicle and damages , if any:

बीमा अधिनियम 1938, धारा 41 - छूट का निषेध/INSURANCE ACT 1938, SECTION 41 - PROHIBITION OF REBATES

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति के किसी भी प्रकार की बीमा पॉलिसी लेने, नवीकरण करवाने अथवा बीमा चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं फुसलाएगा और न ही कोई भी व्यक्ति बीमा पॉलिसी लेने के लिए, नवीकरण के लिए अथवा बीमा चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष अथवा प्रतोभनों को स्वीकार करेगा। (इनमें ने कूटें सम्मिलित नहीं हैं जो कंपनी की विवरण पत्रिका में उल्लिखित हों।) (No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind or risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurer.

2. इस धारा में दर्शीए गए नियमों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति दंडनीय होगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।/ Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine, which may extend up to Ten Lac Rupees.



ध्यान दें; क्या वाहन की तस्वीरें तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं? यदि हाँ, तो फ़ोटो की संख्या निर्दिष्ट करें/N. B. : Whether Photograph(s) of the Vehicle is/ are

attached for ready reference? If yes, specify Nos.

नामांकित बीमालेखक/Nominated Underwriter:

विकास अधिकारी की अनुशंसा/Recommendation(s) of the Development Official:

of Photographs: तिथि एवं समय/Date & Time:

स्थान/Place:

सीआईएनसंख्या/CIN Number: L66000MH1919GOI000526 |आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या/IRDAI Registration Number: 190

पंजीकृत कार्यालय का पता: दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड, #87, महात्मा गांथी मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001/Registered Office Address: The New India Assurance Co. Ltd., #87, M.G.Road, Fort, Mumbai 400 001 वेबसाइट/Website: newindia.co.in टोलफ्री नं./Toll Free No. 1800-209-1415

हस्ताक्षर/Signature:

पदनाम/Designation: वे क्र /S. R. No

नाम एवं वेतन क्रमांक हस्ताक्षर एवं तिथि के साथ/Signature & Date with Name & S. R. No:

नाम एवं वेतन क्रमांक हस्ताक्षर एवं तिथि के साथ/Signature & Date with Name & S. R. No:

नाम/Name

यह प्रस्ताव प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और दोनों भाषाओं की वैधता समान होगी। हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी प्रकार का विरोध अथवा असंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।/This proposal form is available in the Hindi and English languages and both languages shall have equal validity. If there is any conflict or inconsistency between the Hindi version and the English version, the English shall be the prevailing version.